



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]  
No. 80]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2006/वैशाख 8, 1928  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2006/VAISAKHA 8, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

सं. 4 (आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/कच्छ-परि. 1/एएम 07/पीसी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

क्षेत्रीय प्राधिकारियों की सूची और उनके क्षेत्राधिकार का उल्लेख करने वाले परिशिष्ट 1 की क्रम सं. 35 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :

विशेष आर्थिक क्षेत्र :

क्रम सं.	नाम और पता	फोन/फैक्स/ई. मेल/ वेब साइट	क्षेत्राधिकार
35	विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/ विकास उपायुक्त/सहायक विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गाँधीधाम, कच्छ-370230 गुजरात	फैक्स : 02836-52250/252250 ई. मेल: kasez@sancharnet.in, kasez@kandlasez.com फोन : 02836-253300 वेबसाइट : www.kandla.com	1. गुजरात का कच्छ जनपद 2. कांडला और सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाईयां 3. गुजरात में स्थित अनुमोदित निर्यातोनमुख इकाई/विशेष आर्थिक क्षेत्र

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अवर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 28th April, 2006

**No. 4 (RE-2006)/2004—2009**

**F. No. 01/94/180/Kutch-App. 1/AM 07/PC. I.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I):

SI. No. 35 of Appendix I giving the List of Regional Authorities and their Jurisdiction is amended to read as below:

**Special Economic Zones:**

S. No	Name and Address	Phone/Fax/E-mail/Website	Territorial Jurisdiction
35	Development Commissioner/ Joint Development Commissioner/Deputy Development Commissioner/ Assistant Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone, Gandhidham, Kutch-370230, Gujarat.	FAX : 02836-52250/252250 E-Mail : kasez@sancharnet.in, kasez@kandlasez.com Ph.-02836-253300 Website- www.kandla.com	1. Kutch District of Gujarat 2. Units situated in Kandla and Surat SEZs. 3. Approved EOU/SEZs located in Gujarat

This issues in public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.